

जन संपर्क एवं मीडिया समन्वयक कार्यालय  
जामिया मिल्लिया इस्लामिया

20 नवंबर 2018

प्रेस विज्ञप्ति

**स्मार्ट सिटी पर जेएमआई में इंटरनेशनल कांफ्रेंस**

जामिया मिल्लिया इस्लामिया में “स्मार्ट सिटीज़ : आपर्टूनिटी एण्ड चैलेंजेस “ विषय पर एक इंटरनेशनल कांफ्रेंस होने जा रही है। जर्मनी की एपलाईड साइंसेस इनफर्ट यूनिवर्सिटी और इसराइल का एग्रीकल्चर रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इस सम्मेलन के नॉलेज पार्टनर होंगे।

जेएमआई के रजिस्ट्रार ए. पी. सिद्दीकी ने 14 से 16 मार्च, 2019 को होने जा रहे इस सम्मेलन के लिए आज “ डब्ल्यूडब्ल्यूडब्ल्यू स्मार्टसिटीज़जेएमआई.काम “ बेबसाइट का उद्घाटन किया।

इस सम्मेलन पर इस बात पर चर्चा होगी कि कैसे स्मार्ट सिटी बेहतर गवर्नेंस और कुशल मैनेजमेंट को प्रोत्साहित कर सकती हैं। इस बात पर भी विचार होगा कि जल, ऊर्जा , परिवहन, आवास, सतत विकास, आर्थिक प्रगति और नागरिकों के लिए गुणवत्ता भरे रहन सहन को कैसे और बेहतर बनाया जा सकता है।

इसमें प्राकृतिक एवं मानवनिर्मित आपदाओं से निपटने, कचरा निपटान, शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा एवं सामाजिक मुद्दों पर भी चर्चा होगी कि कैसे हर क्षेत्र में मानव जीवन बेहतर बनाते हुए प्रकृति को संरक्षित किया जा सकता है।

इस इंटरनेशनल कांफ्रेंस में दुनिया भर से शिक्षाविद, अनुसंधानकर्ता, छात्र, निति निर्धारक, प्रशासक, शहरी विकास अधिकारी, इंजीनियर, योजनाकार, डिज़ाईनर, वित्तीय इकाइयां, अक्षय उर्जा, सूचना एवं प्रसारण प्रौद्योगिकी के जुड़े लोग, दुकानदार और शहरी ज़रूरतों को मुहैया कराने से जुड़े लोग हिस्सेदारी करेंगे।

सम्मेलन में शिरकात करने के लिए प्रतिनिधि और छात्र आज शुरू हुई संबंधित बेबसाइट के ज़रिए अपना रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं।

**अहमद अज़ीम**

जनसंपर्क अधिकारी एवं मीडिया संयोजक

